

Ref. No.P-66/2025-26/69
December 30, 2025

The Relationship Manager,
Department of Corporate Relations
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street
Fort, MUMBAI – 400 001

Dear Sir,

SUB: Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares.

In accordance with Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copy of the social media post on LinkedIn along with newspaper advertisements published on, December 29, 2025, in Business Standard, Mumbai and Swadesh Jyoti Bhopal, intimating the Members about the opening of a Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares, in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025.

This is for your information, action and record please.

Thanking You,

For 3B BlackBio Dx Limited (Formerly, Kilpest India Limited)

Nikhil Kuber Dubey
Whole Time Director
DIN: 00538049

Encl: As above

Adventure tourism witnesses strong growth in 2025

ROSHNI SHEKHAR
Mumbai, 28 December

From high-altitude treks and mountain biking in India to alpine kayaking in Switzerland or husky safaris and Northern Lights excursions, travellers are increasingly opting for unique experiences. Travel operators have seen a rise in adventure tourism across several age groups in 2025, from high single digits to double-digit growth compared to last year.

Adventure-based travel bookings on EaseMyTrip have seen moderate double-digit growth in 2025 compared to 2024.

Thomas Cook India is witnessing rising interest among Indian travellers for adventure tourism, while its subsidiary SOTC Travel has observed that adventure-led holidays continue to gather momentum in 2025, with travellers increasingly choosing destinations built around outdoor experiences.

"While around 50 per cent of Indian travellers overall show a preference for adventure experiences, interest is significantly higher among Gen Z, where around 60 to 65 per cent plan to include adventure sports in their next trip," said Rikant Pittle, chief executive officer (CEO) and co-founder, EaseMyTrip.

"Millennials continue to contribute strongly as well, particularly in international travel, where activity-driven itineraries shape booking decisions. The segment is seeing steady participation from older travellers too. This indicates that adventure travel is no longer age-specific but is evolving into a broader category that appeals across generations," Pittle said.

The growing YOLO (You Only Live Once) mindset, coupled with a desire for immersive outdoor experiences, is driving demand, primarily across age groups from 20 to 45 years, according to Thomas Cook India.

Rajeev Kale, president and country head of holidays, MICE, visa, Thomas Cook India, noted that in India, regions such as Ladakh, Spiti Valley, Bir, Dharmsala and Solang continue to attract travellers for high-altitude treks, paragliding and mountain biking, while Auli and parts of Uttarakhand are seeing steady demand for skiing and winter activities. Wildlife circuits including Ranthambore, Bandhavgarh, Pench and Tadoba are also popular for safari-led adventures.

Additionally, Indians are also increas-

India's adventures

- EaseMyTrip saw moderate double-digit growth in 2025
- IATO members saw demand up tick, particularly for domestic adventure destinations, shorter getaways, and curated outdoor experiences
- Age group of 20-45 years was the primary drivers for adventure tourism, as per Thomas Cook India
- Around 60-65% Gen Z included adventure sports in their trip
- Millennials remained strong contributors for international travel



ingly opting for adventure activities during international holidays, Kale added.

Switzerland's Interlaken is preferred for skydiving, jet boating and alpine kayaking, while Croatia's islands like Hvar, Split and the Blue Grotto are being chosen for sailing and yacht-based itineraries.

Scandinavia is generating interest for snowmobiling, ice-fishing, husky safaris and Northern Lights excursions, and South Africa remains a preferred choice for marine-life safaris and cage-diving experiences. Other international destinations include Antarctica, Iceland, Bali and Singapore, while Kazakhstan is gaining momentum from younger travellers seeking affordable mountain and outdoor activities.

Currently, EaseMyTrip offers dedicated adventure-tourism products, with the company planning to expand specialised, theme-based and experiential adventure packages to meet rising demand. Thomas Cook India, which includes the Pilgrimage Plus portfolio, which blends darshans with adventure activities like rafting in Rishikesh, treks in Uttarakhand, paragliding in Bir and ziplining over the Ganges. For such trips within India, for five to seven days, budget trips generally range from ₹12,000 to ₹20,000 per person and focus on simple accommodation alongside core experiences such as trekking or rafting, as per EaseMyTrip. Mid-range itineraries typically fall between ₹21,000 and ₹35,000, offering better stays and a broader mix of guided activities, while premium journeys start around ₹45,000 and go

up to ₹70,000 or more, particularly for island destinations or schedules packed with water sports and specialised adventures.

Pittle added that travel costs for international adventure travel follow a similar pattern. "Coastal adventure is also accelerating, with the Andamans drawing divers for vibrant coral reefs, and Goa and Pondicherry popular for kayaking, snorkelling and water-based soft-adventure. Destinations like Yercaud and Coonoor are witnessing uptake for soft-adventure, including ziplining, cycling routes and guided nature walks, appealing to families and first-time adventure seekers," said Sand Nandakumar, president and country head, holidays and corporate tours, SOTC Travel.

He said that short-haul international destinations are also contributing significantly to adventure demand, highlighting that it anticipates this enthusiasm to continue shaping travel choices next year.

Apart from high-impact adventures, senior citizens in India are looking to adopt safe adventure activities as part of their leisure getaways, said Ajeez Bajaj, vice chairman of the Federation of Associations in Indian Tourism & Hospitality.

These could be treks, sports-driven or biking routes and camping.

Gosain emphasised that overall, travel operators are actively responding by curating specialised adventure packages for Indian travellers, including fixed departures, graded activity levels, women-friendly and family-oriented batches, and experiences designed around safety, trained guides and quality infrastructure.

Premium screens, better content flow may lift movie ticket prices

ROSHNI SHEKHAR
Mumbai, 28 December

Multiplex chains expect average ticket prices (ATP) to rise up to 6 per cent in 2026, buoyed by a better flow of films throughout the year and growing preference for premium format screens like IMAX and DX.

In 2025, ATP growth remained moderate and largely in line with inflation for India's largest cinema exhibitor, PVR INOX.

In the first half of FY26, PVR INOX reported a year-on-year (Y-o-Y) increase of about 5 per cent in ATP. At Cinepolis India, ATP rose around 3 per cent in 2025, marginally below inflation of about 4 per cent. Premium pricing there was driven largely by tentpole releases in special formats, including *Kantara: A Legend Chapter 1*, *Chhaya*, *Dhurandhar*, and *Avatar: Fire and Ash*, aimed on the back of IMAX and large format demand.

Miraj Entertainment said its ATP remained largely flat in the first half of the year, with no major growth over the previous financial year until the second quarter. For the next year, cinema exhibitors expect ticket prices to rise gradually rather than spike sharply, in the range of 4-6 per cent.

"ATP in 2026 is expected to grow in the range of 4 to 5 per cent, driven by a stronger content pipeline and rising audience preference for premium and immersive cinema experiences," said Gautam Dutta, chief executive officer (CEO), revenue and operations, PVR INOX.

He added that a better spread of franchises titles, event films and high-quality regional cinema across the calendar should reduce seasonality and help sustain ticket sales. "Content will remain the primary driver, with well-crafted stories across languages encouraging audiences to return to theatres," Dutta said. 2026 is likely to be a step-up year in terms of film flow, footfalls, and overall box-office performance. On a full-year basis in 2025, Miraj Entertainment expects ATP to close marginally higher than last year, at around 5 per cent.

"As more viewers choose experience-led formats, the blended average ticket price will naturally move upward in the range of 4-6 per cent," said Sameer Munshi, vice-president, operations and food and beverage, Miraj Entertainment.

"However, affordability will remain critical, and growth will continue to be more volume-driven than price-driven," Munshi said, adding that growth is also visible in spend per head, with food and beverage recording 10 per cent Yo-Yo growth.

This follows December, which already saw several releases across genres, led by Ranveer Singh-starrer *Dhurandhar*. The film has collected around ₹619.30 crore in 19 days, with its second slot slated for an Eid 2026 release in five languages. From January 1, films such as *Ikkiti: Border 2* featuring Sunny Deol around Republic Day, *O Romeo* starring Shahid Kapoor and Tripti Dimri in February, followed by Yash Raj Films' *Mardani 3* and the comedy *Wazir 2* in March, are lined up for 2026. Major Hollywood releases, including Michael Jackson's biopic

Michael and *The Devil Wears Prada*, are also expected in the first half of the year.

In comparison, *Chhaya* was the only major Hindi-language release that drew audiences to theatres in early 2025. Momentum slowly picked up only in May following Hollywood releases such as Tom Cruise's *Mission: Impossible - The Final Reckoning*.

Amid this, multiplex chains such as PVR INOX, Miraj Entertainment and Mukta A2 Cinemas have managed to sustain weekly footfall through special ticket offers. Devang Sampat, managing director at Cinepolis India, said Tuesday admissions have increased from about 9-10 per cent to 15-16 per cent of weekly footfall. At Mukta A2 Cinemas, weekday offers have encouraged repeat viewing and helped rebuild footfalls beyond weekends, said Satwik Lele, its chief operating officer. This comes at a time when multiplex chains like PVR INOX are sharpening their focus on experience-led offerings like better menus and recreational activities.

Munshi said that during *Dhurandhar's* current theatrical run, spend per head rose by 20 per cent and emphasised that food and beverage accounted for 30 per cent of Cinepolis India's revenue in 2025.

"The industry is looking at a robust film pipeline across languages and genres, which should translate into stronger footfalls and sustained box office momentum," said Lele. "With audiences clearly demonstrating their willingness to step out for quality cinema, we expect the coming year to further consolidate theatres as the preferred destination for collective, immersive entertainment."

'VERY SPECIAL': PREZ AFTER INS VAGHSHEER SORTIE



President Droupadi Murmu on Sunday undertook an over two-hour sortie onboard the indigenously-built submarine INS Vaghsheer on the Western seaboard, signalling India's focus on boosting undersea warfare capabilities. Murmu became the second President to experience a submarine sortie after APJ Abdul Kalam in 2006. Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K Tripathi accompanied President Murmu during the over two-hour sortie in the Kalvari class "silent sentinel" from the Karwar naval base in Karnataka. Murmu, writing in the visitor's book, said it was a "very special experience" for her to "sail, dive and spend time" with the sailors and officers onboard the submarine. PHOTO: PTI

THE ASKA COOPERATIVE SUGAR INDUSTRIES LTD.
PO. Nuagam (Aska) - 761111, Ganjam District, Odisha
E-mail: askasugar@yahoo.co.in, Phone: +919947159891L120
TENDER CALL NOTICE

Ltr.No. GA/D/F-217/193 Date : 26.12.2025

Sealed tender is invited in prescribed form from the reputed Manpower Service Providing Agency having valid labour License, EPL, Good Standing, Tax Audit Certificate and valid number for deployment of about 280 nos. of Manpower of different categories during the Sugarcane Crushing Season 2025-26.

For details, please visit our website (www.askasugar.com) under "Tender". Tender documents complete in all respect must reach the undersigned in sealed cover through Speed Post or on or before **DL.10.01.2026 by 05.00PM**. The authority reserves the right to reject any/all proposals without assigning any reason thereof.

Managing Director

BANK OF BARODA
Bank of Baroda
India's International Bank

<https://bankofbaroda.bank.in>

TENDER NOTICE

Bank of Baroda, Information Security Department, Mumbai invites bids for Supply of QRadar SIEM Hardware, Infrastructure & Storage through GEM portal.

Details are available under Tenders Section of Bank's website <https://bankofbaroda.bank.in>. Any Addendum/Corrigendum including modification in the bid shall be notified only on the Bank's official website. Bidders should refer the same before submission of their Bids.

Gen Bid Reference No: GEM/2025/B/7039922

Last date of submission of online bids: 20-Jan-2026 up to 15:00 hrs. IST.

Place: Mumbai Date: 29-Dec-2025 Group Chief Information Security Officer

B.N. RATHI SECURITIES LIMITED

Corporate Member NSE, BSE & MCX

Corporate Office: 6th Floor, 'Kalyani', Amritra Estates, Somajiguda, Hyderabad-500 002 Tel: 040-40527777, 40727771, 40727772, Fax: 040-40529023, E-mail: brs@brsecurities.com www.brsecurities.com CN:LS993761958PL035358

PUBLIC NOTICE

It has come to our attention that certain fraudulent groups / or individuals, falsely claiming to be associated with BN Rathi Securities Limited and its Directors. Fraudulent groups are using social media platforms including WhatsApp, Facebook, Instagram, and websites to deceive people. They are linking individuals with false promises of share allocations, IPOs, Block trading, guaranteed returns, etc. Official website of the company – BN Rathi Securities Limited is www.brsecurities.com. These fraudsters falsely claim affiliation with our company and use the company's name, brand and take regulatory certificates from SEBI or other official bodies to mislead public. We BN Rathi Securities Limited through any of its officials do not operate any such group or platform and do not offer any form of guaranteed returns or any investment scheme with guaranteed returns. We strongly advise against investing in or through any such fraudulent group or accounts. If you come across any such platform or individual, we strongly recommend avoiding any investment and reporting the issue immediately. Any such transaction entered into by you will be at your sole discretion and we will not be responsible for any claim, cost or consequences. In case of need, please contact cyber crime helpline at 1930. Even we have lodged complaint on cyber crime 1930 against cyber fraudsters.

We caution the public not to fall prey to this fake group and stay vigilant of such scams.

For any information on our products and services, investors can visit BN Rathi Securities Limited website at www.brsecurities.com or officials at 040 40527777 and email: Compliance@brsecurities.com Sincerely

B N Rathi Securities Limited

Bank of Baroda
Bank of Baroda
India's International Bank

TENDER NOTICE

Bank of Baroda, Information Security Department, Mumbai, invites bids for the Services of External Service Provider for External Attack Surface Management (EASM) & Digital Threat Monitoring (DTM) Services through the Government e Marketplace (GEM) portal.

Detailed information is available in the Tenders Section of the Bank's website: <https://bankofbaroda.bank.in>

Any addendum/corrigendum, including modifications to the bid, shall be notified only on the Bank's official website. Bidders are advised to regularly visit the website and refer to it before submitting their Bids.

Gen Bid Reference No.: GEM/2025/B/699582

The last date for submission of online bids is 19th Jan 2026, up to 15:00 hrs. IST

Place: Mumbai Date: 29.12.2025 Group Chief Information Security Officer

134752

PUBLIC NOTICE

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that the following share certificate of PFIZER Limited, Registered Office, The Capital, 1802, 18th Floor, Plot No. C-70, G Block, Bapuji Industrial Estate, Borivali (East), Mumbai - 400051, Maharashtra, India is registered in the name of Vinoba J Rao & Shekhar Kuvva and was sent to Vinoba No 675 HMT Layout V Nagar Bangalore - 560032 has not been in the possession of both shareholders.

This share certificate has been lost, misplaced, and stolen not found.

Name of Shareholder Folio No. Certificate No. of Distinctive No. Shareholders Shares Of Distinctive No. To From To

Vinoba J Rao & PFB0103770 406345 565 24137975 24138337

The public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate. Any person who has any claim in respect of the said share certificate should lodge such complaint with the Company or its Registrar and transfer agents KFin Technology Limited (Unit: PFIZER Limited) Serum, Tower, B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500032, within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue a Duplicate Share Certificate.

THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LIMITED

CIN: L53110MH1948PLC006472

Registered Office: Chembur House, 129 Park Street, Kolkata - 700017 Corporate Office: Plot No. CF-4, Action Area IC, New Town, Kolkata 700156, Telephone: 91477 20400 E-mail: shares@greatship.com Website: www.greatship.com

NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given to inform that in order to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them, SEBI vide its Circular No. SECI/HO/MRSD/DPD/CIR/2025/97 dated 07 July 2025, has issued a circular for the re-lodgement of transfer requests of physical shares.

Investors who have missed the earlier deadline of 31st March, 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. M/s C B Management Services (P) Limited at 20 R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700017. Telephone No.: 033 69026200, E-mail: cbmsl@cbmsl.com

All shares re-lodged during the aforesaid period will be processed on merits through the transfer-cum-demat mode i.e., they will be issued only in dematerialised form after transfer. The lodger must have a demat account number and provide his/her Client Master List, along with the transfer documents and share certificates, while lodging the documents for transfer with RTA. Transfer requests submitted after 6th January, 2026 will not be accepted by the Company/RTA.

3B BlackBio Dx Limited
(Formerly, Kilpest India Limited)
CIN: L24211MP1972PLC001131, Tel: (91) 7558256537
Regd. Office: 7-C, Industrial Area, Govindpura, Bhopal - 462 023
E-mail: info@kilpest.com

NOTICE

Special window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/HO/MRSD/DPD/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, the company is pleased to offer an one -time special window for physical shareholders to submit, re-lodge requests for the transfer of shares. This special window is open from July 7, 2025 to January 6, 2026, and is specially applicable to cases which are lodged prior to deadline of April 1, 2019 and the original share transfer were rejected/returned/not attended due to deficiencies in documentation or were not processed due to any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialised form during this window.

Eligible shareholders may submit their transfer request along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at Adroit Corporate Services Pvt.Ltd., 17-19, Jafferbaugh Ind. Estate, 1st Floor, Makwana - Roar Malaka, Andheri (E), Mumbai 400059, India. Tel: +91 (022) 42270400, email: info@adroitcorporate.com website: www.adroitcorporate.com within the stipulated time.

NOTE: All the shareholders are requested to update their E-mail id (s) with the company/RTA/Depotary Participants.

FOR 3B BLACKBIO DX LIMITED

(FORMERLY, KILPEST INDIA LIMITED)

NIKHIL KUBER DUBEY

WHOLE TIME DIRECTOR

DIN:00538049

Place: Bhopal
Date: 27/12/2025



100 YEARS OF TRUST

BERGER PAINTS INDIA LIMITED

(CIN: L53110GJ1948PLC006472)

Registered Office: Berger House, 129 Park Street, Kolkata - 700017

Corporate Office: Plot No. CF-4, Action Area IC, New Town, Kolkata 700156, Telephone: 91477 20400 E-mail: customerfeedback@bergerindia.com Website: www.bergerpaints.com

Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Berger Paints India Limited

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/HO/MRSD/DPD/CIR/2025/97 dated 2nd July, 2025, all shareholders are hereby informed that a Special Window is being opened for a period of 6 (six) months from 7th July, 2025 to 6th January, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares.

This facility is available for Transfer deeds lodged prior to 1st April, 2019 and which were rejected, returned, or not attended due to deficiencies in documents / process / or otherwise.

Investors who have missed the earlier deadline of 31st March, 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. M/s C B Management Services (P) Limited at 20 R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700017.

During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Listed Company/ RTA, as on date) shall be issued only in demat mode after following due process for transfer-cum-demat request.

Investors who have missed the earlier deadline of 31st March, 2021 are encouraged to take advantage of this opportunity by submitting their requests along with requisite documents to the Company or RTA at below mentioned address.

The Investor Services Department

The Great Eastern Shipping Co. Ltd.

KFin Technologies Limited

(Unit: The Great Eastern

Shipping Co. Ltd.)

Selenium Tower-B, Plot No. 31-32,

Financial District,

Nanakramguda Serilingampally,

Gachibowli, Hyderabad,

Telangana - 500 032

Email ID: einward.ris@kfinitech.com

For the Great Eastern Shipping Company Limited
Sd/-
Arunito Ganguly (FCS-9285)
Place : Kolkata
Place : Mumbai
Dated : 29th December, 2025 Vice President & Company Secretary

Anand Punde
Place : Mumbai
Dated : 28th December, 2025 Company Secretary

3B BlackBio Dx Limited



✓ Following

Home About **Posts** Jobs People



3B BlackBio Dx Limited
4,356 followers

See a collection of active or
past ads by 3B BlackBio Dx
Limited.

[View ad library](#)



3B BlackBio Dx Limited

4,356 followers

[Visit website](#)

now + 1

Important Notice to Shareholders - Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares. [...more](#)



3B BlackBio Dx Ltd.

Formerly, Kelpfest India Limited



3B BLACKBIO DX LIMITED

(Formerly, Kelpfest India Limited)

CIN: U41111MP1972PLC001133

HEAD OFFICE: P.C. INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL-462 023
Email: info@kelpfest.com, Website: www.kelpfest.com
Tel: (0751) 2588536, 2588537

NOTICE

Special window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/NO/MR/SS/MR/SD-Pkd/PVC/I6/2025/97 dated July 03, 2025, the company is pleased to offer an one-time special window for physical shareholders to submit, re-lodgement requests for the transfer of shares. **This special window is open from July 7, 2025 to January 6, 2026**, and is specially applicable to cases which are lodged prior to deadline of April 1,2019 and the original share transfer were rejected/returned/not attended due to deficiencies in documentation, or were not processed due to any other reason. The entries/relodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window.

Eligible shareholders may submit their transfer request along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at Alaris Corporate Services Pvt. Ltd., 17-19, Jaffrey Ind. Estate, 1st Floor, Mahaveer Road, Ward No. 1, Manesar (E), Haryana 400069, India. Tel: +91-122270400, email:rtal@alariscorporate.com website: www.alariscorporate.com within the stipulated time.

NOTE: All the shareholders are requested to update their E-mail id (s) with the company/RTA/Depository Participants.

FOR 3B BLACKBIO DX LIMITED (FORMERLY, KELPFEST INDIA LIMITED)
NICKHIL KUMAR DUBEY
WHOLE TIME DIRECTOR
DIN: 005196049

PLACE: BHOPAL
DATE: 29th December, 2025